



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 67-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 8, 2025 (CHAITRA 18, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग
(कमेटी शाखा-II)

अधिसूचना

दिनांक 08 अप्रैल, 2025

संख्या 9/76/2024-4क-II.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 200 के खण्ड (त) के साथ पठित धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (XV), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 392 छ के खण्ड (16) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9/76/2024/4C-II, दिनांक 9 जुलाई, 2024 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप-विधियां, 2022 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित उप-विधियां बनाते हैं, अर्थात्:-

उप-विधियां

- ये उप-विधियां हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन (संशोधन) उप-विधियां, 2025 कही जा सकती हैं।
- हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप-विधियां, 2022 में, अनुसूची-1 में, खण्ड (14) में, उप-खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) स्वतः विज्ञापन इश्तहार-पट्ट, दीवार आवरण के रूप में भवन के फलक/अग्रभाग के कुल क्षेत्र के केवल तीन प्रतिशत पर अनुमत है। यदि स्वामी स्वतः विज्ञापन के लिए कुल क्षेत्र के तीन प्रतिशत से अधिक क्षेत्र का उपयोग करता है, तब इसे अनुबंध 5 में परिभाषित प्रवर्गों के अधीन विचारा जाएगा और तदनुसार लागू प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे।”

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
(COMMITTEE-II BRANCH)****Notification**

The 8th April, 2025

No. 9/76/2024-4C-II.— In exercise of the powers conferred by clause (xv) of sub-section (1) of section 70 read with clause (p) of section 200 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), clause (16) of section 392 G of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 9/76/2024/4C-II., dated the 9th July, 2024, the Governor of Haryana hereby makes the following bye-laws, further to amend the Haryana Municipal Advertisement Bye -laws, 2022, namely:-

Bye-Laws

1. These bye-laws may be called the Haryana Municipal Advertisement (Amendment) Bye-laws, 2025.
2. In the Haryana Municipal Advertisement Bye-laws, 2022, in Schedule1, in clause 14, for sub-clause (2), the following sub-clause, shall be substituted, namely;-

"(2) Self-advertisement is permitted only on 3% of the total area of facia/ facade of the building, in form of bill board, walls wrap. If the owner utilizes more than 3% of total area for self-advertising, then it shall be considered under categories defined in Annexure-5 and accordingly applicable charges shall be levied."

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.